

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2014—आषाढ़ 31, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग  
(मानव अधिकार प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. एफ 1-10-2010-एक-माअप्र.—मध्यप्रदेश मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय-5 की धारा 25 की उपधारा (1) के प्रावधान अंतर्गत माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र मोहन कंवर, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को दिनांक 31 जुलाई 2014 पूर्वाह्न से अपने पद के साथ-साथ अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जब तक कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.